



ग्रामीण कृषि मौसम सेवा
 भारत मौसम विज्ञान विभाग
 गोविंद बल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
 उधम सिंह नगर, पंतनगर, उत्तराखंड



मौसम आधारित कृषि परामर्श सेवाएं

दिनांक : 01-10-2020

उधम सिंह नगर(उत्तराखंड) के मौसम का पूर्वानुमान - जारी करनेका दिन :2020-10-01 (अगले 5 दिनों के 8:30 IST तक वैध)

मौसम कारक	2020-10-02	2020-10-03	2020-10-04	2020-10-05	2020-10-06
वर्षा (मिमी)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अधिकतम तापमान(से.)	33.0	33.0	32.0	32.0	32.0
न्यूनतम तापमान(से.)	20.0	20.0	20.0	19.0	19.0
अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	70	65	65	65	70
न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता (%)	40	35	35	35	40
हवा की गति (किमी प्रति घंटा)	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
पवन दिशा (डिग्री)	320	320	330	330	330
क्लाउड कवर (ओक्टा)	0	0	0	0	0

मौसम सारांश / चेतावनी:

विगत सात दिनों (24 - 30 सितम्बर, 2020) में 10.2 मिमी वर्षा होने व आसमान में आंशिक से घने बादल छाये रहे। अधिकतम तापमान 31.5 से 33.5 डि०से० एवं न्यूनतम तापमान 20.3 से 25.1 डि०से० के बीच रहा तथा वायु में सुबह 0712 बजे सापेक्षित आर्द्रता 84 से 94 प्रतिशत व दोपहर 1412 बजे सापेक्षित आर्द्रता 52 से 72 प्रतिशत एवं हवा 0.2 से 4.1 कि०मी० प्रति घंटा की गति से मुख्यतः पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा से चली। आगामी पांच दिनों में मौसम साफ रहेगा। अधिकतम एवम् न्यूनतम तापमान क्रमशः 32.0 से 33.0 व 19.0 से 20.0 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

सामान्य सलाहकार:

आगामी दिनों में वर्षा की सम्भावना नहीं है। जिन किसान भाईयों ने सितम्बर माह में तोरिया की बुवाई नहीं की है, वे अभी भी तोरिया की बुवाई अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक कर सकते हैं। किसान भाई पिछले सप्ताह के मौसम, मौसम पूर्वानुमान और मौसम आधारित कृषि सलाह प्राप्त करने के लिए "मेघदूत ऐप" डाउनलोड करें।

लघु संदेश सलाहकार:

आगामी पांच दिनों में वर्षा की सम्भावना नहीं है।

फ़सल विशिष्ट सलाह:

फ़सल	फ़सल विशिष्ट सलाह
सरसों	आगामी पांच दिनों में वर्षा की सम्भावना नहीं है। खेत के खाली होने पर अक्टूबर के प्रथम पखवाड़े में राई एवं पीली सरसों की बुवाई करें। राई की उन्नतशील प्रजातियों - वरूणा, रोहणी, कृष्णा, कान्ति, वरदान, वैभव, बसंती, नरेंद्र, अगेती राई-4, उर्वशी में से एक का चुनाव करें। पीली सरसों की उन्नतशील प्रजातियों - रागिनी, विनोय (बी-9), पंत पीली सरसों-1 में से एक का चुनाव करें।
चावल	धान की शीघ्र एवं मध्यम अवधि वाली किस्मों में बालियों के सुनहरें रंग प्राप्त होने की अवस्था में कटाई करें। कटाई में विलम्ब होने पर फसल के गिरने व बालियों में दाना झड़ने का अंदेशा रहता है। धान की फसल की कटाई से 10-15 दिन पहले ही सिंचाई बंद कर दें। इससे कटाई के समय दानों में नमी की मात्रा करीब 20 प्रतिशत हो जाती है तथा करीब 10-15 से 0मी0 सिंचाई की बचत होती है और फसल 2-3 दिन पहले ही कटाई योग्य हो जाती है।

बागवानी विशिष्ट सलाह:

बागवानी	बागवानी विशिष्ट सलाह
आम	आम के विल्ट की समस्या को नियंत्रित करने के लिए थायोफनेट मिर्थाइल (70 प्रतिशत डब्लू पी) को 2 ग्राम/लीटर पानी की दर से घोल बनाकर पेड़ की ड्रेचिंग 10 दिन के अन्तराल पर करें। तथा स्वस्थ पौधों को कॉपर सल्फेट के 1 किग्रा/पौधे की दर से उपचारित करें। इस समस्या से बचाव हेतु आम के बाग का उचित पोषण भी बहुत आवश्यक है।
गोभी	जिन किसान भाईयों के खेत में गोभी के अगेती फसल के फल तैयार हो चुके हैं उन्हें काटकर बाजार भेजें तथा मध्यकालीन गोभी की पौध की रोपाई जो पिछले माह की है उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करें। साथ ही निराई गुड़ाई एवं सिंचाई की व्यवस्था करें।

पशुपालन विशिष्ट सलाह:

पशुपालन	पशुपालन विशिष्ट सलाह
गाय	दूध छुड़ाये हुए छः माह के बछियों को ब्रूसोलोसिस/संक्रामक गर्भपात, आई.वी.आर., बोवाईन वायरल, डायरिया, पैराइन्फ्लूएन्जा, गलघोट्टू आदि के संयुक्त टीके एक साथ लगवायें तथा ब्लैकलेग 7 वे नामक दूसरा संयुक्त टीका दूसरी बार 15-21 दिनों के अन्तराल पर लगवायें।